

m.B.No- 418

mmay

20-81

Schedule XLV-Form No. 134

ਸਿਰਸੀ ਭਾਗ ਉਸਮੀ ਏਲਾ ਅ ਮਧਰਾਧਰ

ਸਾਂਝੀ - ਚੌਕ ਨਕ

DIVISION

ਸਮਿਲਾ ਗੋਸਟਰ

SUB-DIVISION

ਭਾਗ ਸਮਿਲਾ ਪਰਬਲਾ

m.B.No- 418

44

Measurement Book

Kawal Kishore

418

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्तक में मशीन द्वारा अंकित
कुल - 100 (एक सौ) पन्ने हैं जिसे
श्री अखिलेश कुमार, सहायक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, परबता का
निर्गत किया जाता है।


30.4.20

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोगरी
30.4.20

Sch. XLV - Form No. 134

प्रमंडल, गोगरी DIVISION
अवर प्रमंडल, परबता SUB-DIVISION

Measurement Book
No. 418

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work—					
Const. of Road					
from Sinhai Gandhi Kusrni					
to Mathurapur Gandhi					
Chowk.					
Name of Agency—					
Kunal Kishore					
Agreement No.—					
38.SBD/2019-20					
Date of Start—					
21.11.2019					
Date of Completion—					
20.11.2020					

Record measurement

Date— 10.06.2020

1. setting out of pillars

Pvg. & fixing of working

benchmark pillars etc—

do-do-all comp job —

0.400 Km.

2. clearing & grubbing

road land (By manual

means) including uprooting

wild vegetation, grass, bushes

etc—do-do-all comp job

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of works: - Canal of road from Orcha to Bund 2					
Kusoni Hala to Mathurapur					
Uradhi chauri					
Name of Agency: - Rural					
Wk. No.					
Agg. No.: 39580/2019-20					
Date of commencement					
				21-11-2019	
Date of completion					
				20-11-2020	
Actual Date of completion					
				25-03-2022	

Date of work					
(1) Restoration of roadside					
Borrow with Soil excavation etc					
— — — — —					
10x7.40m x 1.20m x 0.30m = 26.64m ³					
(2) making cut at borrow /					
Shoulder stripping excess					
Soil from the shoulder — —					
— — — — —					
10x5m x 0.90m = 45m ³					
20x3m x 0.95m = 57m ³					
10x4m x 0.80m = 32m ³					
5x20m x 0.70m = 70m ³					
10x40m x 0.75m = 2900m ³					
10x10m x 0.75 = 75m ³					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Restoration of road					
cut & fill comp. soil					
at vide on this on B. no					
(73) item no (1) - 26.64 m					
@ 352.21/m ³					9383.2
(2) making up of kerbs,					
shoulder stripping excess					
soil - - - - -					
at vide on this on B.					
P. no (73) item no (2)					
= 308 m ³					
@ 51.71/m ²					15927.2

(3) bituminous surface work					
2 coat - - - - -					
at vide on this on B.					
P. no (74) item no					
(3) 12.42 m ² @ 143.14/m ²					1778.2
(4) maintenance of road					
sign					
at vide on this on B.					
P. no (74) item no (4)					
= 0.16 km @ 1067.44/m					171.2
Limit as per D.P.R. (Summary of Expenses)					168.00
(5) maintenance of road					
and kerbs					
at vide on this on B. P. no					
(74) item no (5) = 0.19 km					
@ 104.48 @ 59.72/m					112.00

Continuation

Limit as per D.P.R. (Summary of Expenses) of material cost.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
(8) Cutting of branch off trees					
each side 10m deep each B					
P. no (75) Id. no (C)					
= 270					
@ 104.48/cum L — m					209 =
below 10% is less than 25%					
or					
25/3/23					
J-B					
Sgt					
12/06/24					
BK					
GJ					

material		Station
E/cut	72.84 m ³	
Sand	0.075 m ³	
Bitumen	0.335 m ³	0.266 m ³
Stone	0.335 m ³	
Gravel	0.002 m ³	

Dr
 25/3/23
 J.C